



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 फरवरी, 2024

फाल्गुन 3, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-4

संख्या 55/24-यू०एन०एन०पी०/23-70(प्रकोष्ठ)-14

लखनऊ, 22 फरवरी, 2024

अधिसूचना

सा०प०नि०-8

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें)

(द्वितीय संशोधन), नियमावली, 2024

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में, नियम 3 में:- नियम 3 का संशोधन

(एक) नीचे स्तम्भ- एक में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक

विद्यमान उप-नियम

(1) आयोग का सचिव, सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाये जाने के कारण हुई रिक्ति की स्थिति में बिना किसी विलम्ब के और अधिवर्षिता या कार्यकाल समाप्त होने के कारण हुई किसी रिक्ति स्थिति में ऐसी अधिवर्षिता या कार्यकाल की समाप्ति के दिनांक से सात माह पूर्व राज्य सरकार को लिखित रूप से सूचित करेगा।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(1) आयोग का सचिव, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाये जाने के कारण हुई रिक्ति की स्थिति में बिना किसी विलम्ब के और अधिवर्षिता या कार्यकाल समाप्त होने के कारण हुई किसी रिक्ति की स्थिति में ऐसी अधिवर्षिता या कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से छह माह पूर्व राज्य सरकार को लिखित रूप में सूचित करेगा।

(दो) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (1क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(1क) जब कभी आयोग का सचिव उप-नियम (2) के अधीन अध्यक्ष के कार्यालय में होने वाली रिक्ति के विषय में लिखित रूप में सूचित करता है, तो राज्य सरकार यह विनिश्चय करेगी कि अध्यक्ष की नियुक्ति धारा 84 की उप-धारा (2) के अधीन अथवा धारा 85 के अधीन की जाय।”

(तीन) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक

विद्यमान उप-नियम

(3) किसी सदस्य के पद पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिए संयोजक विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, औद्योगिक संगठनों और विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय में लगे हुए अन्य संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और उच्च न्यायालय को अध्यक्षपेक्षा भेजेगा और सरकारी गजट में रिक्ति अधिसूचित करके पात्र व्यक्तियों से सीधे आवेदन पत्र मांगेगा। पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र को सीधे या अधिकारी या प्राधिकारी जिसके अधीन वह तत्समय कार्य कर रहा हो, के माध्यम से भेज सकता है।

(चार) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक

विद्यमान उप-नियम

(4) संयोजक ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्होंने सदस्य के पद के लिए सम्यक् रूप से आवेदन किया है, एक ऐसी सूची तैयार करेगा और उसे ऐसे अभ्यर्थियों से सम्बन्ध रखने वाले समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(पाँच) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उप-नियम (6) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक

विद्यमान उप-नियम

(6) किसी सदस्य का चयन, चयन समिति के बहुमत के विनिश्चय द्वारा किया जाएगा।

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक

विद्यमान नियम

अध्यक्ष
की
नियुक्ति

4-धारा 84 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो राज्य सरकार सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(3) यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिए संयोजक विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, औद्योगिक संगठनों और विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय में लगे हुए अन्य संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं को अध्यक्षपेक्षा भेजेगा और गजट में रिक्ति अधिसूचित करके पात्र व्यक्तियों से भी सीधे आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र को सीधे अधिकारी या प्राधिकारी जिसके अधीन वह तत्समय कार्य कर रहा हो, के माध्यम से भेज सकता है।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(4) संयोजक ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्होंने यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए सम्यक् रूप से आवेदन किया है, एक सूची तैयार करेगा और उसे ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(6) अध्यक्ष या किसी सदस्य का चयन, चयन समिति के बहुमत विनिश्चय द्वारा किया जायगा।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अध्यक्ष
की
नियुक्ति

4-जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या जहाँ अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्यथा किसी कारण से होती है, वहाँ ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक की अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः प्रारम्भ नहीं करता, अथवा यथास्थिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है।

नियम 4 का
संशोधन

स्तम्भ-एक
विद्यमान नियम

स्तम्भ-दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्पष्टीकरण :—

किसी सदस्य की सदस्य के रूप में ज्येष्ठता/ उसके नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। यदि दो सदस्य एक ही दिनांक को नियुक्त किये जाते हैं, तो आयु में बड़ा सदस्य ज्येष्ठ होगा।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 55/XXIV-U.N.N.P./23-70 (Prakosth)-14, dated February 22, 2024 :

No. 55/ XXIV-U.N.N.P./23-70 (Prakosth)-14

Dated Lucknow, February 22, 2024

**THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHAIRPERSON
AND MEMBERS) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2024**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment and Conditions of Service of the Chairperson and Members) (Second Amendment) Rules, 2023. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment and Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules") in rule 3:- Amendment of rule-3

(i) *for* the existing sub-rule (1) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

Column-I

Existing sub-rule

(1) The Secretary of the Commission shall intimate in writing to the State Government in the case of the vacancy occurring by reason of death, resignation or removal or without any delay and in the case of a vacancy occurring by reason of superannuation or end of the tenure of a member, before seven months of the date of such

Column-II

Sub-rule as hereby substituted

(1) The Secretary of the Commission shall intimate in writing to the State Government in the case of the vacancy occurring by reason of death, resignation or removal without any delay; and in case of a vacancy occurring by reason of superannuation or end of tenure of the Chairperson or a member, before six months of the date of such

superannuation or end of the tenure.

superannuation or end of the tenure.

(ii) *after* sub-rule (1) the following new sub-rule shall be *inserted*, namely:-

“(1a) Whenever the Secretary of the Commission intimates in writing informing about a vacancy occurring in the office of Chairperson under sub-rule (2) the State Government shall decide whether to appoint the Chairperson under sub-section (2) of section-84 or under section-85.”

(iii) *for* the existing sub-rule (3) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

Column-I

Existing sub-rule

(3) For the purpose of selecting suitable person to the Office of a Member, the Convener shall send requisition to various State Governments and the Central Government Departments, Public and Private Undertakings, Industrial Organisations and other Organisations engaged in generation, transmission, distribution and supply of electricity, financial institutions, educational institutions and to the High Court and shall also invite applications directly from eligible persons by notifying the vacancy in the *Gazette*. The eligible persons may send their applications directly or through the officer or Authority under whom he is for the time being working.

Column-II

Sub-rule as hereby substituted

(3) For the purpose of selecting suitable person to the office of Chairperson or a Member, as the case may be, the Convener shall send requisition to various State Governments and the Central Government Departments, Public and Private undertakings, Industrial Organisations and other Organisations engaged in generation, transmission, distribution and supply of electricity, financial institutions, educational institutions and shall also invite applications directly from eligible persons by notifying the vacancy in the *Gazette*. The eligible persons may send their applications directly through the officer or Authority under which he is, for the being, working.

(iv) *for* the existing sub-rule (4) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

Column-I

Existing sub-rule

(4) The Convener shall prepare a list of candidates who have duly applied for the Office of a Member and place the same before the Selection Committee with all relevant records pertaining to such candidates.

Column-II

Sub-rule as hereby substituted

(4) The Convener shall prepare a list of candidates who have duly applied for the Office of the Chairperson or a Member, as the case may be, and place the same before the Selection Committee with all relevant records pertaining to such candidates.

(v) *for* the existing sub-rule (6) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

<u>Column-I</u> <i>Existing sub-rule</i>	<u>Column-II</u> <i>Sub-rule as hereby substituted</i>
(6) Selection of a Member shall be made by majority decision of the Selection Committee.	(6) Selection of Chairperson or a Member shall be made by majority decision of the Selection Committee.
3-In the said rules for the existing rule-4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be <i>substituted</i> , namely:-	Amendment of rule 4

<u>Column-I</u> <i>Existing rule</i>	<u>Column-II</u> <i>Rule as hereby substituted</i>
Appointment of the Chairperson 4. Subject to the provisions of sub-section (2) of section 84 the State Government shall appoint, from amongst the Members, one member as Chairperson whenever the vacancy occurs in the post of the Chairperson.	Appointment of the Chairperson 4. Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause; or where any vacancy occurs in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the seniormost member shall discharge the functions of the Chairperson until he resumes his duties or, as the case may be, a Chairperson appointed in accordance with the provisions of the Act assumes charge of his office. Explanation: The seniority of a member shall be determined from the date of his appointment as member. If two Members are appointed on the same date, the Member older in age shall be senior.

By order,
MAHESH KUMAR GUPTA,
Apar Mukhya Sachiv.